

सीएसआर सततता- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आवश्यक कार्यों की प्रस्तावित वार्षिक योजना/सीएसआर बजट

राशि ₹ लाख में

क्र. सं.	गतिविधि	टीएचडीसीआईएल परियोजना स्थल							टिप्पणी	
		टिहरी एचपीपी	कोटेश्वर एचईपी	ऋषिकेश और अन्य स्थान	दुकवा एचईपी	खुर्जा एसटीपीपी	वीपीएचईपी	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
गतिविधि - 1										
	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य निवारक देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना (शुद्धिपत्र संदर्भ 31 मार्च 2014) और स्वच्छता "स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित" (संदर्भ अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2014)) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।									
1	अल्पकालीन	बहुविशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर और दवाओं और चिकित्सा किटों का वितरण / पशु चिकित्सा शिविर, कृत्रिम गर्भाधान / टेली मेडिसिन परियोजना आदि।	48.00	5.00	4.00	1.00	5.00		63.00	
2	अल्पकालीन	पेयजल सुविधाएं/पाइपलाइन एवं अन्य पेय जल योजना/	15.00		1.00	2.00			18.00	
3	अल्पकालीन	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता/शौचालय निर्माण आदि	22.00		45.00		13.50		80.50	
4	अल्पकालीन	पेयजल के लिए मिनी ट्यूबवेल		11.00		2.00	0.00		13.00	
5	दीर्घकालिक	होम्योपैथिक औषधालय/एलोपैथिक अस्पताल @ दीन गांव आई/सी दवाएं, कर्मचारियों का वेतन और परिवहन आदि।	50.00	6.00	9.00				65.00	
6	अल्पकालीन	सुसज्जित मोबाइल हेल्थ वैन	30.00						30.00	
7	अल्पकालीन	1 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान 2018-19	34.40	17.80	5.90	9.30	9.30	15.30	92.00	
		2- स्वच्छता पखवाड़ा	5.00	1.50	10.00	2.00	1.50		20.00	
उप शीर्ष 01 - कुल			204.40	41.30	74.90	16.30	29.30	15.30	381.50	381.50

गतिविधि - 2									
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं									
1	<p>अल्पकालीन कंप्यूटर/टैली अकाउंटिंग/होटल मैनेजमेंट/आईटीआई/एएनएम ट्रेनिंग आदि में सर्टिफिकेट कोर्स और जरूरतमंद छात्रों को करियर काउंसलिंग/ कोचिंग /स्कॉलरशिप/मोबाइल रिपेयरिंग/ब्यूटीशियन कोर्स/सिलाई सेंटर/हस्तशिल्प प्रशिक्षण आदि और आजीविका जागरूकता कार्यक्रम/किसान प्रशिक्षण/किसानों का एक्सपोजर दौरा/जॉली ग्रांट सेंटर में प्रशिक्षण आदि।</p>	50.00	8.00	10.00	2.00	10.00		80.00	

क्र. सं.	गतिविधि		टीएचडीसीआईएल परियोजना स्थल						टिप्पणी	
			टिहरी एचपीपी	कोटेश्वर एचईपी	ऋषिकेश और अन्य स्थान	ढुक्वा एचईपी	खुर्जा एसटी पीपी	वीपी एचईपी		कुल
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	अल्पकालीन	स्कूलों की चार दीवारों और छत की मरम्मत/मौजूदा खेल के मैदान आदि का विस्तार		10.00		1.00			11.00	
3	अल्पकालीन	उत्तराखंड सरकार का अनुपूर्व/ भारत सरकार के कार्यक्रम अर्थात कस्टम हायरिंग सेंटर/डेयरी विकास आदि।	20.00	2.00	3.00				25.00	
4	अल्पकालीन	कंप्यूटर सेट/स्कूल बैग/पुलओवर/ट्रैक सूट/किताबें एवं स्टेशनरी/ फर्नीचर आदि का वितरण, सेमिनार एवं प्रकाशन।	25.00	2.00	2.00	2.00			31.00	
5	दीर्घकालिक	कोटेश्वर में स्कूल / टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस) स्कूल		30.00	575.00				605.00	
6	दीर्घकालिक	बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय रानीचाँरी	10.00	10.00					20.00	
7	दीर्घकालिक	दिल्ली विश्वविद्यालय - सतत आजीविका के लिए ग्रामीण समुदाय की पारिस्थितिक बहाली, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण आदि पर गतिविधियाँ	50.00						50.00	
8	दीर्घकालिक	जिला टिहरी में एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सीएसआर आजीविका परियोजनाएं आदि।	50.00						50.00	
9	अल्पकालीन	टीएचडीसी-आईएचईटी- यूपीआरएनएन का दायित्व	74.00						74.00	
उप शीर्ष 02 - कुल			279.00	62.00	590.00	5.00	10.00	0.00	946.00	946.00
गतिविधि - 3										
लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनार्थों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं और विशेष और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।										
2	दीर्घकालिक	सूक्ष्म स्तर के वित्तपोषण के लिए सहकारी बैंकिंग	10.00						10.00	
3	दीर्घकालिक	परियोजना प्रभावित क्षेत्र में वृद्धाश्रम	33.17						33.17	
उप शीर्ष 03 - कुल			43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17	43.17

गातीवोध - 4									
पर्यावरणीय सततता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और जल की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान भी शामिल है; " (संदर्भ अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2014)									
1	अल्पकालीन	पौधशाला विकास	1.00		10.00				11.00
2	अल्पकालीन	मिट्टी, हवा और जल की गुणवत्ता बनाए रखना	1.00						1.00
3	अल्पकालीन	एनजीओ/सरकारी विभाग आदि के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य।	2.00			1.00	1.00		4.00
4	अल्पकालीन	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जैसे चेक डैम/जल संचयन टैंक/पाइपलाइन का निर्माण	8.00	2.00					10.00
5	दीर्घकालिक	क्लस्टर का फल उत्पादक ग्राम के रूप में विकास	5.00	4.00					9.00
6	अल्पकालीन	विश्व पर्यावरण दिवस- 5 जून			0.50				0.50
उप शीर्ष 04 - कुल			17.00	6.00	10.50	1.00	1.00	0.00	35.50

[illegible]

गतिविधि - 9									
	केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान की गई धनराशि में योगदान								
1	अल्पकालीन	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	2.00		1.00			3.00	
उप शीर्ष 09 - कुल			2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	

[illegible]

गतिविधि - 12 (सीएसआर एवं सततता नीति 2015 के अनुसार)									
	अल्पकालीन	विपत्ति/आपदा खण्ड 4.1.5 के अनुसार	17.00	1.00	12.00			30.00	***
उप शीर्ष 11 - कुल			17.00	1.00	12.00	0.00	0.00	30.00	30.00
गतिविधियों के लिए कुल (1 से 12)			694.57	129.30	723.40	24.30	100.30	1687.17	1687.17

*** टीएचडीसी सीएसआर एवं सततता नीति के अनुसार कुल सीएसआर बजट का अधिकतम 5% यानी 1735.17 लाख का अधिकतम 5% का प्रावधान है।

टिप्पणी: 2018-19 बजट के लिए की गई गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची VII के अनुसार हैं, टीएचडीसीआईएल सीएसआर और सततता नीति 2015 के अनुलग्नक-I का संदर्भ ग्रहण करें

वित्त वर्ष 2017-18 का स्पिलओवर बजट (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखांकन के बाद) उपरोक्तानुसार सूचीबद्ध गतिविधियों में पुनः विनियोजन किया जाएगा

क्र. सं.	गतिविधि	टीएचडीसीआईएल परियोजना स्थल						टिप्पणी	
		टिहरी एचपीपी	कोटेश्वर एचईपी	ऋषिकेश और अन्य स्थान	ढुक्वा एचईपी	खुर्जा एसटीपी पी	वीपीए चईपी		कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सामाजिक एवं पर्यावरण विभाग, ऋषिकेश									
वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आवश्यक कार्यों की प्रस्तावित वार्षिक योजना/सीएसआर बजट का सारांश									
क्र. सं.	गतिविधि	सेवा-टीएचडीसी							टिप्पणी
		टिहरी एचपीपी	कोटेश्वर एचईपी	ऋषिकेश और अन्य स्थान	ढुक्वा एचईपी	खुर्जा एसटीपी पी	वीपी एचई पी	कुल	
	विवरण	राशि रु. लाख में							टिप्पणी
1	सेवा-टीएचडीसी और टीईएस द्वारा परियोजनाएं	694.57	129.30	723.40	24.30	100.30	15.30	1687.17	
2	प्रशासनिक व्यय (सीएसआर नीति 2015 के अनुसार)								
क	क्षमता निर्माण, प्रशासनिक ओवरहेड्स/बेसलाइन सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन/मूल्यांकन/रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आदि पर व्यय			16.00	पिछले वर्ष के व्यय से 10% अधिक रखा गया			16.00	टीएचडीसीआईएल सीएसआर और सततता नीति 2015 के अनुसार सीएसआर बजट की अधिकतम सीमा 5% है। संदर्भ खंड संख्या: 4.1.3, पृष्ठ 4
ख	स्टाफ को वेतन/आर एंड एम/यात्रा एवं संचार आदि में व्यय			32.00	पिछले वर्ष के व्यय से 10% अधिक रखा गया			32.00	
	उप योग 2 (क+ख)	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
	(1+2क+2ख) का योग =	694.57	129.30	771.40	24.30	100.30	15.30	1735.17	1735.17
				निधि की स्थिति					
A -	कुल प्रस्तावित बजट व्यय		1735.17		लाख		वरि.प्रबंधक (बजट) के पत्र दिनांक 08.01.2018 के अनुसार		
B -	2018-19 के लिए उपलब्ध बजट (नीति के अनुसार)		1735.17		लाख				

}

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2017-18 का
 स्पिलओवर बजट (वित्तीय वर्ष
 2017-18 के लिए लेखांकन के बाद)
 उपरोक्त संचोबद्ध गतिविधियों में
 पुनः विनियोजित किया जाएगा

वि.वर्ष 2015-16 88781.00
 वि.वर्ष 2016-17 80135.00
 वि.वर्ष 2017-18 88148.00

औ. लाभ 85688.00
 औ. लाभ का 1735.17
 2%